



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 फाल्गुन, 1940 (श०)

संख्या- 247 राँची, मंगलवार, 19 मार्च, 2019 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

14 मार्च, 2019/23 फाल्गुन, 1940(शक)

संख्या- 434/पूर्व अनु-1/झार-लो.स./2019(2) :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसकी अधिसूचना संख्या 434/झार०-लो०स०/2014(2) दिनांक 14 मार्च, 2014 का अधिक्रमण करते हुए निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट सरकार के प्रत्येक अधिकारी को, ऐसे अधिकारी के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में यथाविनिर्दिष्ट झारखण्ड राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में एतद्वारा पदाभिहित करता है:-

सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
1	2
1-राजमहल (अ०ज०जा०)	1. अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल
	2. अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज
	3. अपर समाहर्ता, साहेबगंज
	4. अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़
	5. अपर समाहर्ता, पाकुड़
	6. भूमि सुधार उप समाहर्ता, पाकुड़
2-दुमका (अ०ज०जा०)	1. भूमि सुधार उप समाहर्ता, दुमका
	2. अपर समाहर्ता, जामताड़ा
	3. अनुमंडल पदाधिकारी, जमताड़ा
	4. अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका
	5. अपर समाहर्ता, दुमका
	6. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्वद, मधुपुर
3-गोड्डा	1. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका
	2. अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर
	3. अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर
	4. भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा
	5. अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा
	6. अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा
4-चतरा	1. अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरिया
	2. अनुमंडल पदाधिकारी, चतरा
	3. अपर समाहर्ता, लातेहार
	4. अनुमंडल पदाधिकारी, लातेहार
	5. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू
5-कोडरमा	1. अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा
	2. भूमि सुधार उप समाहर्ता, बरही
	3. अनुमंडल पदाधिकारी, खोरीमहुआ
	4. अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर-सरिया
	5. अपर समाहर्ता, गिरिडीह
	6. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह

6-गिरिडीह	1. अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह
	2. अनुमंडल पदाधिकारी, डुमरी
	3. अपर समाहर्ता, बोकारो
	4. अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट)
	5. भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद
	6. निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन (DRDA), धनबाद
7-धनबाद	1. अनुमंडल पदाधिकारी, चास
	2. भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास
	3. अपर समाहर्ता, धनबाद
	4. विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, धनबाद
	5. अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद
	6. अपर समाहर्ता (विधि0 व्यवस्था), धनबाद
8-राँची	1. अनुमंडल पदाधिकारी, चाण्डिल
	2. अपर समाहर्ता, राँची
	3. अपर समाहर्ता, (नक्सल) राँची
	4. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, राँची
	5. अपर जिला दण्डाधिकारी (विधि-व्यवस्था), राँची
	6. भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, राँची
9-जमशेदपुर	1. निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP, जमशेदपुर
	2. अनुमंडल पदाधिकारी, घाटशिला
	3. अपर जिला दण्डाधिकारी (विधि-व्यवस्था), जमशेदपुर
	4. विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, जमशेदपुर
	5. अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर
	6. अपर उपायुक्त, जमशेदपुर
10-सिंहभूम (अ०ज०जा०)	1. अनुमंडल पदाधिकारी, सरायकेला
	2. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, चाईबासा
	3. भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर, चाईबासा
	4. अपर उपायुक्त, चाईबासा
	5. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चाईबासा
	6. अनुमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर
11-खूँटी (अ०ज०जा०)	1. अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ
	2. अनुमंडल पदाधिकारी, बुण्डू
	3. अपर समाहर्ता, खूँटी
	4. अनुमंडल पदाधिकारी, खूँटी
	5. अनुमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा
	6. अपर समाहर्ता, सिमडेगा

झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 19 मार्च, 2019

12-लोहरदगा (अ०ज०जा०)	1. विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची
	2. अनुमंडल पदाधिकारी, बसिया
	3. अनुमंडल पदाधिकारी, गुमला
	4. भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला
	5. अनुमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा
13-पलामू (अ०जा०)	1. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर
	2. अपर समाहर्ता, पलामू
	3. अनुमंडल पदाधिकारी, छतरपुर
	4. अनुमंडल पदाधिकारी, हुसैनाबाद
	5. अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा
	6. अनुमंडल पदाधिकारी, नगर उँटारी
14-हजारीबाग	1. अनुमंडल पदाधिकारी, बरही
	2. भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़
	3. अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ़
	4. अपर समाहर्ता, हजारीबाग
	5. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग

आदेश से,

के. एन. भार,
प्रधान सचिव ।

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(एल० खियांगते)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-अपर मुख्य सचिव

Election Commission of India

NOTIFICATION**14th March, 2019/23 Phalguna, 1940 (Saka)**

No. 434/ES-1/JKD-HP/2019(2) :- In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and in supersession of its notification No. 434/JKD-HP/2014(2), dated 14th March, 2014, the Election Commission hereby appoints each of the officers of the Government as specified in column (2) of the Table below as the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Jharkhand as specified in the column (1) of the said Table against each officer of the Government in the performance of the functions of such Returning Officers:-

TABLE

Number and Name of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
01-Rajmahal (ST)	1. Sub Divisional Officer, Rajmahal
	2. Sub Divisional Officer, Sahebganj
	3. Additional Collector, Sahebganj
	4. Sub Divisional Officer, Pakur
	5. Additional Collector, Pakur
	6. Deputy Collector Land Reforms, Pakur
02-Dumka (ST)	1. Deputy Collector Land Reforms, Dumka
	2. Additional Collector, Jamtara
	3. Sub Divisional Officer, Jamtara
	4. Sub Divisional Officer, Dumka
	5. Additional Collector, Dumka
	6. Executive Officer, Nagar Parisad, Madhupur
03-Godda	1. District Supply Officer, Dumka
	2. Sub Divisional Officer, Madhupur
	3. Sub Divisional Officer, Deoghar
	4. Deputy Collector Land Reforms, Godda
	5. Sub Divisional Officer, Godda
	6. Sub Divisional Officer, Mahagama
04-Chatra	1. Sub Divisional Officer, Simaria
	2. Sub Divisional Officer, Chatra
	3. Additional Collector, Latehar
	4. Sub Divisional Officer, Latehar
	5. District Supply Officer, Palamu

झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 19 मार्च, 2019

05-Koderma	1. Sub Divisional Officer, Koderma
	2. Deputy Collector Land Reforms, Barhi
	3. Sub Divisional Officer, Khorimahua
	4. Sub Divisional Officer, Bagodar-Sariya
	5. Additional Collector, Giridih
	6. District Supply Officer, Giridih
06-Giridih	1. Sub Divisional Officer, Giridih
	2. Sub Divisional Officer, Dumri
	3. Additional Collector, Bokaro
	4. Sub Divisional Officer, Bermo (Tenughat)
	5. Deputy Collector Land Reforms, Dhanbad
	6. Director, Account And Self Employment DRDA, Dhanbad
07-Dhanbad	1. Sub Divisional Officer, Chas
	2. Deputy Collector Land Reforms, Chas
	3. Additional Collector, Dhanbad
	4. Special Officer Rationing, Dhanbad
	5. Sub Divisional Officer, Dhanbad
	6. Additional Collector (Law & Order), Dhanbad
08-Ranchi	1. Sub Divisional Officer, Chandil
	2. Additional Collector, Ranchi
	3. Additional Collector (Naxal), Ranchi
	4. Sub Divisional Officer, Sadar Ranchi
	5. Adm (Law & Order), Ranchi
	6. Deputy Collector Land Reforms, Sadar, Ranchi
09-Jamshedpur	1. Director, National Rural Employment Programme (NREP), East Singhbhum, Jamshedpur
	2. Sub Divisional Officer, Ghatsila
	3. Additional District Magistrate (Law & Order), East Singhbhum, Jamshedpur
	4. Special Officer Rationing, Jamshedpur
	5. Sub Divisional Officer, Dhalbhum, Jamshedpur
	6. Additional Collector, Jamshedpur
10-Singhbhum (ST)	1. Sub Divisional Officer, Saraikela
	2. Sub Divisional Officer, Sadar Chaibasa
	3. Deputy Collector Land Reforms, Sadar Chaibasa
	4. Additional Collector, Chaibasa
	5. District Supply Officer, Chaibasa
	6. Sub Divisional Officer, Podahat-Chakradharpur
11-Khunti (ST)	1. Additional Collector, Saraikela Kharsawan
	2. Sub Divisional Officer, Bundu
	3. Additional Collector, Khunti
	4. Sub Divisional Officer, Khunti
	5. Sub Divisional Officer, Simdega
	6. Additional Collector, Simdega
12-Lohardaga (ST)	1. Special Officer Rationing, Ranchi
	2. Sub Divisional Officer, Basia
	3. Sub Divisional Officer, Gumla
	4. Land Reform Deputy Collector, Gumla
	5. Sub Divisional Officer, Lohardaga

13-Palamau (SC)	1.	Sub Divisional Officer, Sadar Medninagar
	2.	Additional Collector, Palamu
	3.	Sub Divisional Officer, Chhatarpur
	4.	Sub Divisional Officer, Hussainabad
	5.	Sub Divisional Officer, Garhwa
	6.	Sub Divisional Officer, Nagarutari
14-Hazaribag	1.	Sub Divisional Officer, Barhi
	2.	Deputy Collector Land Reforms, Ramgarh
	3.	Sub Divisional Officer, Ramgarh
	4.	Additional Collector, Hazaribag
	5.	Sub Divisional Officer, Sadar Hazaribag

By Order,

K.N.BHAR,
PRINCIPAL SECRETARY.
